

Examination for Selection Posts Phase VII 2019

Roll No.	WWW.QMATHS.IN
Registration No.	WWW.QMATHS.IN
Name	WWW.QMATHS.IN
Test Venue	iON Digital Zone iDZ 2 Patliputra
Test Time	4:00 PM - 5:00 PM
Test Date	16/10/2019
Subject	Selection Post Graduate Level

Section : General Intelligence

Q.1 उन अक्षरों के संयोजन का चयन करें जो दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेंगे।

Z O M _ Q _ Y O _ S Q _ X _ M S _ N

- Ans
- 1. QMSNOQ
 - 2. SNMNOQ
 - 3. SMNOQM
 - 4. SNMQOQ

Question ID : 368907428

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.2 एक कोड भाषा में, 'GOSPEL' को 'SOGLEP' लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में 'DOCKET' को कैसे लिखा जायेगा?

- Ans
- 1. ODKETE
 - 2. CODKTE
 - 3. TEKCOD
 - 4. CODTEK

Question ID : 368907421

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.3 $A + B$ का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
 $A \div B$ का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'

यदि $M \div Q + R + O$ है तो, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

- Ans
- 1. Q, O के दादा हैं।
 - 2. R, O का पिता है।
 - 3. M, R के नानी हैं।
 - 4. R, M का बेटा है।

Question ID : 368907430

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.4 उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे कि दूसरी संख्या, पहली संख्या से संबंधित है।

3 : 26 :: 5 : ?

- Ans 1. 124
 2. 122
 3. 123
 4. 121

Question ID : 368907434

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.5 नीचे तीन कथन दिए गए हैं और उसके बाद तीन निष्कर्ष I, II तथा III दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, यह निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता/करते हैं।

कथन:

कोई भी व्यापारी किसान नहीं है।
कुछ अधिकारी व्यापारी हैं।
सभी मैकेनिक अधिकारी हैं।

निष्कर्ष:

- I. कोई मैकेनिक किसान नहीं है।
II. कुछ व्यापारी किसान हैं।
III. कुछ मैकेनिक अधिकारी नहीं हैं।

- Ans 1. सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।
 2. केवल निष्कर्ष I और II अनुसरण करते हैं।
 3. केवल निष्कर्ष II और III अनुसरण करते हैं।
 4. कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।

Question ID : 368907431

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.6 उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगी।

20, 20, 22, ?, 40, 60, 90

- Ans 1. 27
 2. 25
 3. 26
 4. 28

Question ID : 368907433

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.7 एक कोड भाषा में, 'ROLLER' को 'TQNJCP' लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में 'DOCILE' को कैसे लिखा जायेगा?

- Ans 1. FPEHID
 2. EPFGKD

3. PFIGJC

4. FQEGJC

Question ID : 368907423

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.8 'पर्शिया', 'ईरान' से उसी तरह संबंधित है, जिस तरह 'बर्मा' '_____' से संबंधित है।

Ans 1. तेहरान

2. एशिया

3. म्यांमार

4. रंगून

Question ID : 368907420

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.9 उस अक्षर-समूह का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

PRICE, RRICE, RTICE, RTKCE, ?, RTKEG

Ans 1. RTKFE

2. RTKEG

3. RTKDG

4. RTKCE

Question ID : 368907416

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.10 दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन-सी दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए?

$$40 \times 2 - (5 \times 13) + 15 (4 \times 2) + 156 \div 12 = 152$$

Ans 1. 12 और 40

2. 15 और 13

3. 12 और 13

4. 40 और 4

Question ID : 368907435

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.11 एक कोड भाषा में, यदि 'MOUNT' को '166' के रूप में कोडबद्ध किया गया है। उसी कोड भाषा में 'ROUND' को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा?

Ans 1. 142

2. 146

3. 140

4. 144

Question ID : 368907425

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.12

- Ans 1.
2.
3.
4.

Question ID : 368907436
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.13 निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प का चयन किजिए।

1. सोना
2. अलार्म बजना
3. सुबह का नाश्ता
4. अलार्म लगाना
5. जागना

- Ans 1. 4, 1, 2, 5, 3
2. 3, 1, 5, 2, 4
3. 2, 1, 3, 4, 5
4. 4, 1, 3, 5, 2

Question ID : 368907417
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.14 उस अक्षर-समूह का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

VKQ, XMS, APV, ETZ, ?

- Ans 1. KYE
2. KXE
3. JYE
4. JXD

Question ID : 368907415
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.15

- Ans 1.
2.
3.
4.

Question ID : 368907439
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.16 एक कोड भाषा में, यदि 'VERY' को '52292' के रूप में कोडबद्ध किया गया है। उसी कोड भाषा में 'SAME' को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा?

- Ans 1. 8261321
2. 8261422

3. 9261422

4. 8251421

Question ID : 368907426
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.17

- Ans 1.
2.
3.
4.

Question ID : 368907437
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.18 निम्नलिखित में कौन-सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है, जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं?

1. Magnetic
2. Magician
3. Magnifier
4. Magnitude
5. Magically

- Ans 1. 5, 2, 3, 4, 1
2. 5, 2, 3, 1, 4
3. 5, 2, 1, 3, 4
4. 4, 5, 2, 3, 1

Question ID : 368907418
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.19

- Ans 1.
2.
3.
4.

Question ID : 368907438
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.20 उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है।

ईदें : मकान :: हड्डियां : ?

- Ans 1. चिकित्सक
2. अंग
3. उक्तक
4. कंकाल

Question ID : 368907419

Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.21 देवकी अंकुर की बहन है। विनायक की शादी दीप्ती की इकलौती बेटी कृति से हुई है। अर्नब देवकी के नाना हैं। दीप्ती माला की बेटी है। कृति अंकुर की मां हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- Ans
1. विनायक अर्नब का बेटा है।
 2. अर्नब माला का बेटा है।
 3. देवकी विनायक की बेटी है।
 4. कृति माला की बेटी है।

Question ID : 368907429
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.22 उन अक्षरों के संयोजन का चयन करें जो दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेंगे।

V _ B _ _ T B W _ T _ W

- Ans
1. TWVBV
 2. WTVBV
 3. TVWBB
 4. TWVVB

Question ID : 368907427
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.23 एक कोड भाषा में, यदि 'MANDATE' को '2612881405' के रूप में कोडबद्ध किया गया है। उसी कोड भाषा में 'TECHNIQUE' को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा?

- Ans
1. 40561614917215
 2. 20561628183422
 3. 40561628934215
 4. 40106162893442

Question ID : 368907424
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.24 नीचे तीन कथन दिए गए हैं और उसके बाद चार निष्कर्ष I, II, III तथा IV दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, यह निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता/करते हैं।

कथन:

कुछ घोड़े ऊंट हैं।
कुछ चूहें ऊंट हैं।
सभी चूहें चींटियाँ हैं।

निष्कर्ष:

- I. कोई घोड़े चींटियाँ नहीं हैं।
- II. कुछ चींटियाँ चूहें हैं।
- III. कुछ चींटियाँ ऊंट हैं।
- IV. कोई भी चूहा घोड़ा नहीं है।

- Ans
1. केवल निष्कर्ष III और IV अनुसरण करते हैं।
 2. केवल निष्कर्ष III और IV अनुसरण करते हैं।
 3. केवल निष्कर्ष I और II अनुसरण करते हैं।

4. केवल निष्कर्ष I और III अनुसरण करते हैं।

Question ID : 368907432

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.25 एक कोड भाषा में, 'PARCEL' को 'BQDSMF' लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में 'DESIRE' को कैसे लिखा जायेगा?

- Ans
1. EFJQFT
 2. FEJUGS
 3. FEJTFS
 4. GFKTFS

Question ID : 368907422

Status : Answered

Chosen Option : 3

Section : English Language Basic Knowledge

Q.1 Select the most appropriate option to fill in the blank.

His relinquishment _____ his post deprived him of his chances of promotion.

- Ans
1. from
 2. with
 3. for
 4. of

Question ID : 368907447

Status : Answered

Chosen Option : 1

Comprehension:

Read the passage and answer the questions given below it.

Tornadoes are large, destructive columns of spinning air that stretch from a thunderstorm to the ground. They can have wind speeds over 300 miles per hour (mph), grow over a mile wide, and travel over 50 miles before dissolving. Tornadoes are incredibly dangerous and should be avoided at all costs.

Tornadoes, also known as twisters, need a few ingredients in order to form. They require warm, moist winds in the lower atmosphere; cold, dry winds in the upper atmosphere; and a thunderstorm's updraft, or an upward current of air. A thunderstorm forms when the warm, moist winds meet the cold, dry winds. This causes the warm and cold air to spin around each other in an invisible horizontal tube. The updraft then tilts the horizontal spinning winds vertical, causing the winds to spin more violently and form a funnel cloud. Once this funnel cloud grows longer and touches the Earth's surface, it becomes a tornado.

Scientists can't go inside tornadoes which means that they are extremely hard to research. As a result, we know surprisingly little about them. In order to tell how powerful a tornado is, scientists look at how much destruction it causes. Scientists then rank the tornado on the Enhanced Fujita Scale (EF-Scale), which ranges from EF0 to EF5. For example, a tornado that only damages trees but doesn't significantly damage buildings would be rated EF0 with wind speeds between 65 and 85 mph. A tornado that blows away buildings and rips up sidewalks, on the other hand, would be rated EF5 with wind speeds over 200 mph.

The most powerful tornado in United States history occurred near Oklahoma City in 1999. It had wind speeds over 310 mph, the highest wind speed ever recorded on Earth. A tornado with wind speeds that high can not only pick up and throw automobiles, it can also knock over trains and tear up roadways.

Luckily for anyone living in an area that experiences the occasional tornado, they usually only last one to 10 minutes. More powerful tornadoes can last over an hour in the right conditions, but they are very rare.

If you find yourself experiencing a tornado, find a safe place inside, like an interior hall, basement, or closet. Stay away from windows and heavy objects that could fall on you, and lay on your stomach with your hands protecting the back of your head. Having a tornado

emergency plan is extremely important as tornadoes can appear very quickly. Make sure to listen to the radio or television to stay updated on severe weather patterns in your area.

SubQuestion No : 2

Q.2 Choose the option that completes the statement correctly.

Tornados stretch from

- Ans**
1. one side to another side
 2. upward winds to downward winds
 3. sky to earth
 4. warm winds to cold winds

Question ID : 368907462

Status : Answered

Chosen Option : 2

Comprehension:

Read the passage and answer the questions given below it.

Tornadoes are large, destructive columns of spinning air that stretch from a thunderstorm to the ground. They can have wind speeds over 300 miles per hour (mph), grow over a mile wide, and travel over 50 miles before dissolving. Tornadoes are incredibly dangerous and should be avoided at all costs.

Tornadoes, also known as twisters, need a few ingredients in order to form. They require warm, moist winds in the lower atmosphere; cold, dry winds in the upper atmosphere; and a thunderstorm's updraft, or an upward current of air. A tornado forms when the warm, moist winds meet the cold, dry winds. This causes the warm and cold air to spin around each other in an invisible horizontal tube. The updraft then tilts the horizontal spinning winds vertical, causing the winds to spin more violently and form a funnel cloud. Once this funnel cloud grows longer and touches the Earth's surface, it becomes a tornado.

Scientists can't go inside tornadoes which means that they are extremely hard to research. As a result, we know surprisingly little about them. In order to tell how powerful a tornado is, scientists look at how much destruction it causes. Scientists then rank the tornado on the Enhanced Fujita Scale (EF-Scale), which ranges from EF0 to EF5. For example, a tornado that only damages trees but doesn't significantly damage buildings would be rated EF0 with wind speeds between 65 and 85 mph. A tornado that blows away buildings and rips up sidewalks, on the other hand, would be rated EF5 with wind speeds over 200 mph.

The most powerful tornado in United States history occurred near Oklahoma City in 1999. It had wind speeds over 310 mph, the highest wind speed ever record on Earth. A tornado with wind speeds that high can not only pick up and throw automobiles, it can also knock over trains and tear up roadways.

Luckily for anyone living in an area that experiences the occasional tornado, they usually only last one to 10 minutes. More powerful tornadoes can last over an hour in the right conditions, but they are very rare.

If you find yourself experiencing a tornado, find a safe place inside, like an interior hall, basement, or closet. Stay away from windows and heavy objects that could fall on you, and lay on your stomach with your hands protecting the back of your head. Having a tornado emergency plan is extremely important as tornadoes can appear very quickly. Make sure to listen to the radio or television to stay updated on severe weather patterns in your area.

SubQuestion No : 3

Q.3 Choose the option that completes the statement correctly.

EF scale tells us about:

- Ans**
1. where a tornado is going to strike.
 2. what the intensity of a tornado is.
 3. when a tornado is going to strike.
 4. how a tornado is going to strike.

Question ID : 368907464

Status : Answered

Chosen Option : 2

Comprehension:

Read the passage and answer the questions given below it.

Tornadoes are large, destructive columns of spinning air that stretch from a thunderstorm to the ground. They can have wind speeds over 300 miles per hour (mph), grow over a mile wide, and travel over 50 miles before dissolving. Tornadoes are incredibly dangerous and should be avoided at all costs.

Tornadoes, also known as twisters, need a few ingredients in order to form. They require warm, moist winds in the lower atmosphere; cold, dry winds in the upper atmosphere; and a thunderstorm's updraft, or an upward current of air. A tornado forms when the warm, moist winds meet the cold, dry winds. This causes the warm and cold air to spin around each other in an invisible horizontal tube. The updraft then tilts the horizontal spinning winds vertical, causing the winds to spin more violently and form a funnel cloud. Once this funnel cloud grows longer and touches the Earth's surface, it becomes a tornado.

Scientists can't go inside tornadoes which means that they are extremely hard to research. As a result, we know surprisingly little about them. In order to tell how powerful a tornado is, scientists look at how much destruction it causes. Scientists then rank the tornado on the Enhanced Fujita Scale (EF-Scale), which ranges from EF0 to EF5. For example, a tornado that only damages trees but doesn't significantly damage buildings would be rated EF0 with wind speeds between 65 and 85 mph. A tornado that blows away buildings and rips up sidewalks, on the other hand, would be rated EF5 with wind speeds over 200 mph.

The most powerful tornado in United States history occurred near Oklahoma City in 1999. It had wind speeds over 310 mph, the highest wind speed ever record on Earth. A tornado with wind speeds that high can not only pick up and throw automobiles, it can also knock over trains and tear up roadways.

Luckily for anyone living in an area that experiences the occasional tornado, they usually only last one to 10 minutes. More powerful tornadoes can last over an hour in the right conditions, but they are very rare.

If you find yourself experiencing a tornado, find a safe place inside, like an interior hall, basement, or closet. Stay away from windows and heavy objects that could fall on you, and lay on your stomach with your hands protecting the back of your head. Having a tornado emergency plan is extremely important as tornadoes can appear very quickly. Make sure to listen to the radio or television to stay updated on severe weather patterns in your area.

SubQuestion No : 4

Q.4 Choose the option that correctly answers the question.

Which of the following should NOT be done during a tornado?

- Ans**
1. Be close to heavy objects.
 2. Lie down on your stomach
 3. Take shelter in the basement
 4. Be indoors

Question ID : 368907463

Status : Answered

Chosen Option : 4

Comprehension:

Read the passage and answer the questions given below it.

Tornadoes are large, destructive columns of spinning air that stretch from a thunderstorm to the ground. They can have wind speeds over 300 miles per hour (mph), grow over a mile wide, and travel over 50 miles before dissolving. Tornadoes are incredibly dangerous and should be avoided at all costs.

Tornadoes, also known as twisters, need a few ingredients in order to form. They require warm, moist winds in the lower atmosphere; cold, dry winds in the upper atmosphere; and a thunderstorm's updraft, or an upward current of air. A tornado forms when the warm, moist winds meet the cold, dry winds. This causes the warm and cold air to spin around each other in an invisible horizontal tube. The updraft then tilts the horizontal spinning winds vertical, causing the winds to spin more violently and form a funnel cloud. Once this funnel cloud grows longer and touches the Earth's surface, it becomes a tornado.

Scientists can't go inside tornadoes which means that they are extremely hard to research. As a result, we know surprisingly little about them. In order to tell how powerful a tornado is, scientists look at how much destruction it causes. Scientists then rank the tornado on the Enhanced Fujita Scale (EF-Scale), which ranges from EF0 to EF5. For example, a tornado that only damages trees but doesn't significantly damage buildings would be rated EF0 with wind speeds between 65 and 85 mph. A tornado that blows away buildings and rips up sidewalks, on the other hand, would be rated EF5 with wind speeds over 200 mph.

The most powerful tornado in United States history occurred near Oklahoma City in 1999. It had wind speeds over 310 mph, the highest wind speed ever record on Earth. A tornado with wind speeds that high can not only pick up and throw automobiles, it can also knock over trains and tear up roadways.

Luckily for anyone living in an area that experiences the occasional tornado, they usually only

last one to 10 minutes. More powerful tornadoes can last over an hour in the right conditions, but they are very rare.

If you find yourself experiencing a tornado, find a safe place inside, like an interior hall, basement, or closet. Stay away from windows and heavy objects that could fall on you, and lay on your stomach with your hands protecting the back of your head. Having a tornado emergency plan is extremely important as tornadoes can appear very quickly. Make sure to listen to the radio or television to stay updated on severe weather patterns in your area.

SubQuestion No : 5

Q.5 Choose the option that answers the question correctly.

Which of the following is NOT a requirement for the formation of a tornado?

- Ans**
1. warm and humid winds down below
 2. cold and dry wind up above
 3. upward draft
 4. funnel cloud

Question ID : 368907466

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Comprehension:

Read the passage and answer the questions given below it.

Tornadoes are large, destructive columns of spinning air that stretch from a thunderstorm to the ground. They can have wind speeds over 300 miles per hour (mph), grow over a mile wide, and travel over 50 miles before dissolving. Tornadoes are incredibly dangerous and should be avoided at all costs.

Tornadoes, also known as twisters, need a few ingredients in order to form. They require warm, moist winds in the lower atmosphere; cold, dry winds in the upper atmosphere; and a thunderstorm's updraft, or an upward current of air. A tornado forms when the warm, moist winds meet the cold, dry winds. This causes the warm and cold air to spin around each other in an invisible horizontal tube. The updraft then tilts the horizontal spinning winds vertical, causing the winds to spin more violently and form a funnel cloud. Once this funnel cloud grows longer and touches the Earth's surface, it becomes a tornado.

Scientists can't go inside tornadoes which means that they are extremely hard to research. As a result, we know surprisingly little about them. In order to tell how powerful a tornado is, scientists look at how much destruction it causes. Scientists then rank the tornado on the Enhanced Fujita Scale (EF-Scale), which ranges from EF0 to EF5. For example, a tornado that only damages trees but doesn't significantly damage buildings would be rated EF0 with wind speeds between 65 and 85 mph. A tornado that blows away buildings and rips up sidewalks, on the other hand, would be rated EF5 with wind speeds over 200 mph.

The most powerful tornado in United States history occurred near Oklahoma City in 1999. It had wind speeds over 310 mph, the highest wind speed ever record on Earth. A tornado with wind speeds that high can not only pick up and throw automobiles, it can also knock over trains and tear up roadways.

Luckily for anyone living in an area that experiences the occasional tornado, they usually only last one to 10 minutes. More powerful tornadoes can last over an hour in the right conditions, but they are very rare.

If you find yourself experiencing a tornado, find a safe place inside, like an interior hall, basement, or closet. Stay away from windows and heavy objects that could fall on you, and lay on your stomach with your hands protecting the back of your head. Having a tornado emergency plan is extremely important as tornadoes can appear very quickly. Make sure to listen to the radio or television to stay updated on severe weather patterns in your area.

SubQuestion No : 6

Q.6 Choose the option that completes the statement correctly.

A tornado can affect the area of _____ before it subsides.

- Ans**
1. unlimited area
 2. only at one spot
 3. One mile
 4. 50 miles

Question ID : 368907465

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.7 Choose the option that is the correct direct form of the given sentence.

My professor told me that I was selected to represent our college in the debate competition.

- Ans**
1. My professor said to me, "I am selected to represent our college in the debate competition."
 2. My professor said to me, "You are selected to represent their college in the debate competition."
 3. My professor said to me, "You are selected to represent our college in the debate competition."
 4. My professor said to me, "You have been selected to represent our college in the debate competition."

Question ID : 368907444

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.8 Identify the segment in the sentence, which contains the grammatical error.

The monster in the film was the most ugliest I ever saw.

- Ans**
1. the most ugliest
 2. The monster
 3. in the film was
 4. I ever saw

Question ID : 368907440

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.9 Select the alternative that will improve the underlined part of the sentence in case there is no improvement select "No improvement".

Please don't do this mistake again.

- Ans**
1. No improvement
 2. make
 3. create
 4. demonstrate

Question ID : 368907446

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.10 Given below are four jumbled sentences. Pick the option that gives their correct order.

- A. It took us a long time to make the ladder but we finished it before nightfall.
- B. We had to fix the ladder to the lower branches of our tree.
- C. The ladder was then pulled up and fixed in place.
- D. We did this by shooting an arrow, with a rope attached to it, over the branch.

- Ans**
1. CDBA
 2. BDCA
 3. CBDA
 4. ABCD

Question ID : 368907449

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.11 Select the most appropriate antonym of the given word.

ARID

- Ans
1. fertile
 2. barren
 3. parched
 4. dry

Question ID : 368907451
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.12 Choose the option that is the correct passive form of the given sentence.

The teacher told Meera to recite the poem.

- Ans
1. Meera is told to recite the poem by the teacher.
 2. Meera was told to recite the poem by the teacher.
 3. Meera will be told to recite the poem by the teacher.
 4. Meera was told to reciting the poem by the teacher.

Question ID : 368907441
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.13 Choose the option that is the correct indirect form of the given sentence.

The director said to the actor, "Please memorise your lines properly."

- Ans
1. The director requested the actor memorised his lines properly.
 2. The director requested the actor to memorise his lines properly.
 3. The director requested the actor to memorise your lines properly.
 4. The director request the actor to memorise his lines properly.

Question ID : 368907443
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.14 Choose the option that is the correct active form of the given sentence.

He was ordered by his boss to finish the project soon.

- Ans
1. His boss has ordered him to finish his project soon.
 2. His boss ordered him to finished his project soon.
 3. His boss ordered him to finish his project soon.
 4. His boss order him to finish his project soon.

Question ID : 368907442
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.15 Select the most appropriate synonym of the given word.

INSIPID

- Ans
1. appetizing
 2. exciting

3. delicious

4. bland

Question ID : 368907450
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.16 Select the alternative which is the correct spelling.

Ans 1. ilegibel

2. illegbal

3. illegible

4. ilegible

Question ID : 368907454
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.17 Select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence.

We bought a beautiful painting but it cost us an arm and a leg.

Ans 1. a lot of money

2. bad luck

3. good luck

4. an accident

Question ID : 368907452
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.18 Select the most appropriate alternative to the given group of words.

One who works for the good of others

Ans 1. altruist

2. agnostic

3. atheist

4. antagonist

Question ID : 368907453
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.19 Select the alternative that will improve the underlined part of the sentence in case there is no improvement select "No improvement".

We had very strong rainfall this week.

Ans 1. No improvement

2. heavy

3. bulky

4. large

Question ID : 368907445
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.20 Select the alternative that is appropriate to fill the blank.

She was _____ to have such a wonderful family.

- Ans
1. favourable
 2. fastidious
 3. fortuitous
 4. fortunate

Question ID : 368907448

Status : Answered

Chosen Option : 4

Comprehension:

In the following passage some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for each blank.

The (1)_____ of Kaziranga National Park in Assam are (2)_____ a new plan to save the endangered rhino. Nearly 50 school children from the neighbouring villages will take part in a training programme on (3)_____. The three-day programme (4)_____ trekking in the park and (5)_____ with experts.

SubQuestion No : 21

Q.21 Select the most appropriate option to fill in blank No.1.

- Ans
1. government
 2. people
 3. authorities
 4. delegation

Question ID : 368907456

Status : Answered

Chosen Option : 3

Comprehension:

In the following passage some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for each blank.

The (1)_____ of Kaziranga National Park in Assam are (2)_____ a new plan to save the endangered rhino. Nearly 50 school children from the neighbouring villages will take part in a training programme on (3)_____. The three-day programme (4)_____ trekking in the park and (5)_____ with experts.

SubQuestion No : 22

Q.22 Select the most appropriate option to fill in blank No.2

- Ans
1. adapting
 2. adopting
 3. thinking
 4. fostering

Question ID : 368907457

Status : Answered

Chosen Option : 2

Comprehension:

In the following passage some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for each blank.

The (1)_____ of Kaziranga National Park in Assam are (2)_____ a new plan to save the endangered rhino. Nearly 50 school children from the neighbouring villages will take part in a

training programme on (3)____. The three-day programme (4)____ trekking in the park and (5)____ with experts.

SubQuestion No : 23

Q.23 Select the most appropriate option to fill in blank No.3

- Ans**
1. compensation
 2. conservation
 3. tourism
 4. endangerment

Question ID : 368907458
Status : Answered
Chosen Option : 2

Comprehension:

In the following passage some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for each blank.

The (1)____ of Kaziranga National Park in Assam are (2)____ a new plan to save the endangered rhino. Nearly 50 school children from the neighbouring villages will take part in a training programme on (3)____. The three-day programme (4)____ trekking in the park and (5)____ with experts.

SubQuestion No : 24

Q.24 Select the most appropriate option to fill in blank No.4

- Ans**
1. extends
 2. inspires
 3. exudes
 4. includes

Question ID : 368907459
Status : Answered
Chosen Option : 4

Comprehension:

In the following passage some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for each blank.

The (1)____ of Kaziranga National Park in Assam are (2)____ a new plan to save the endangered rhino. Nearly 50 school children from the neighbouring villages will take part in a training programme on (3)____. The three-day programme (4)____ trekking in the park and (5)____ with experts.

SubQuestion No : 25

Q.25 Select the most appropriate option to fill in blank No.5

- Ans**
1. discussions
 2. declamations
 3. discrepancies
 4. disputes

Question ID : 368907460
Status : Answered
Chosen Option : 1

Section : Quantitative Aptitude Basic Arithmetic Skill

Q.1

Ans 1.

- 2.
- 3.
- 4.

Question ID : **368907475**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.2

- Ans**
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.

Question ID : **368907483**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.3

- Ans**
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.

Question ID : **368907474**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.4

- Ans**
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.

Question ID : **368907489**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.5

- Ans**
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.

Question ID : **368907479**
Status : **Not Answered**
Chosen Option : **--**

Q.6

- Ans**
 - 1.
 - 2.

3.

4.

Question ID : 368907468
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.7

Ans 1.

2.

3.

4.

Question ID : 368907472
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.8

Ans 1.

2.

3.

4.

Question ID : 368907477
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.9

Ans 1.

2.

3.

4.

Question ID : 368907484
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.10

Ans 1.

2.

3.

4.

Question ID : 368907487
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.11

Ans 1.

2.

- 3.
- 4.

Question ID : **368907490**
Status : **Not Answered**
Chosen Option : --

Q.12

- Ans** 1.
2.
3.
4.

Question ID : **368907467**
Status : **Answered**
Chosen Option : 3

Q.13

- Ans** 1.
2.
3.
4.

Question ID : **368907485**
Status : **Not Answered**
Chosen Option : --

Q.14

- Ans** 1.
2.
3.
4.

Question ID : **368907488**
Status : **Answered**
Chosen Option : 4

Q.15

- Ans** 1.
2.
3.
4.

Question ID : **368907478**
Status : **Not Answered**
Chosen Option : --

Q.16

- Ans** 1.
2.
3.

4.

Question ID : **368907473**
Status : **Not Answered**
Chosen Option : --

Q.17

Ans 1.
2.
3.
4.

Question ID : **368907486**
Status : **Not Answered**
Chosen Option : --

Q.18

Ans 1.
2.
3.
4.

Question ID : **368907470**
Status : **Not Answered**
Chosen Option : --

Q.19

Ans 1.
2.
3.
4.

Question ID : **368907480**
Status : **Answered**
Chosen Option : 4

Q.20

Ans 1.
2.
3.
4.

Question ID : **368907482**
Status : **Answered**
Chosen Option : 1

Q.21

Ans 1.
2.
3.

4.

Question ID : **368907481**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.22

Ans 1.
2.
3.
4.

Question ID : **368907469**
Status : **Not Answered**
Chosen Option : --

Q.23

Ans 1.
2.
3.
4.

Question ID : **368907471**
Status : **Not Answered**
Chosen Option : --

Q.24

Ans 1.
2.
3.
4.

Question ID : **368907491**
Status : **Not Answered**
Chosen Option : --

Q.25

Ans 1.
2.
3.
4.

Question ID : **368907476**
Status : **Not Answered**
Chosen Option : --

Section : **General Awareness**

Q.1 भाखड़ा नांगल बांध _____ नदी पर स्थित है।

Ans 1. चेनाब
2. ब्यास

3. रावी
4. सतलुज

Question ID : 368907503

Status : **Not Attempted and Marked For Review**

Chosen Option : --

Q.2 2019 में, प्रधानमंत्री ने सभी रेलवे कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित बोनस (प्रॉडक्टिविटी लिंकड बोनस/ पीएलबी) देने को मंजूरी दे दी। पीएलबी कितने दिनों के श्रम के बराबर है?

- Ans
1. 78
 2. 93
 3. 54
 4. 67

Question ID : 368907513

Status : **Not Answered**

Chosen Option : --

Q.3 भारत के पूर्ण क्षेत्र के लिए डोमिनियन स्टेटस की पहली माँग कब की गई थी?

- Ans
1. कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 1928
 2. गांधी इरविन समझौता, 1931
 3. कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, 1916
 4. नेहरू रिपोर्ट, 1928

Question ID : 368907506

Status : **Not Answered**

Chosen Option : --

Q.4 निम्नलिखित में से किस यूनानी यात्रा पुस्तक में भारतीय समुद्र तट पर स्थित बंदरगाहों को सूचीबद्ध किया गया है?

- Ans
1. द कोलोसस ऑफ मार्ससी
 2. पेरिप्लस मैरिस एरीथ्रे
 3. ओडिपस रेक्स
 4. वीनस एट ला मेर

Question ID : 368907511

Status : **Not Answered**

Chosen Option : --

Q.5 2019 में, भारत के उपराष्ट्रपति, एम वेंकैया नायडू ने _____ नामक पुस्तक जारी की जिसमें भारत के वर्तमान राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के भाषणों का संकलन है।

- Ans
1. भाषण कला
 2. उनवे मरुनथु
 3. लैंड मी यॉर ईयर्स
 4. द रिपब्लिकन एथिक

Question ID : 368907512

Status : **Not Answered**

Chosen Option : --

Q.6 यदि किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक' घोषित किया गया है, तो उस समुदाय या

संप्रदाय के सदस्य निम्नलिखित में से कौन-सा लाभ नहीं ले सकते हैं?

- Ans
1. वे प्रधानमंत्री के 15-सूत्रीय कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं
 2. वे केवल अपने समुदाय के सदस्यों के लिए अलग संस्थान स्थापित कर सकते हैं
 3. इस समुदाय के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है
 4. वे रोजगार के मामलों में बड़ी हुई ऋण सहायता के लिए विशेष योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं

Question ID : 368907515
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.7 लोवर हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन-सी है?

- Ans
1. जन्स्कर
 2. पीर पंजाल
 3. लद्दाख
 4. धौलाधार

Question ID : 368907505
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.8 निम्नलिखित में से कौन-सी एक ग्रीनहाउस गैस नहीं है?

- Ans
1. मीथेन
 2. कार्बन डाइऑक्साइड
 3. नाइट्रोजन
 4. जलवाष्प

Question ID : 368907499
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.9 _____ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे।

- Ans
1. वीर सावरकर
 2. लाला लाजपत राय
 3. चंद्रशेखर आज़ाद
 4. फ़िरोज़ शाह कोटला

Question ID : 368907507
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.10 निम्नलिखित में से वह कौन-सा बैक्टीरिया है जिसे किण्वन (फ़र्मिटेशन) की प्रक्रिया में उपयोग नहीं किया जाता है?

- Ans
1. कैम्पिलोबैक्टर
 2. लैक्टोबैसिलस
 3. ल्यूकोनोस्टोक
 4. स्ट्रेप्टोकोकस

Question ID : 368907498
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.11 प्रिंटर या फोटोकॉपी मशीन का फोटोरिसेप्टर किस तत्व से बनाया जाता है?

- Ans
1. सीज़ियम
 2. एमोरफस (Amorphous) सिलिकॉन
 3. एमोरफस (Amorphous) फॉस्फोरस
 4. बर्केलियम

Question ID : 368907500
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.12 सितंबर, 2019 में, समुद्र से यात्रा करने वालों को ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समुद्रीय संचार सेवाओं को _____ में शुभारंभ किया।

- Ans
1. चेन्नई
 2. बेंगलुरु
 3. मुंबई
 4. दिल्ली

Question ID : 368907497
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.13 भारत और चीन के मध्य कौन-सा पहाड़ी दर्रा है?

- Ans
1. काराकोरम दर्रा
 2. शिल्पी दर्रा
 3. बोलन दर्रा
 4. खैबर दर्रा

Question ID : 368907504
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.14 कार्बन तत्व का ठोस रूप क्या है?

- Ans
1. चूना पत्थर
 2. कार्बन डाइऑक्साइड
 3. हीरा
 4. मीथेन

Question ID : 368907501
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.15 किस स्कूल ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिताब , 'यू17 गर्ल्स सुब्रतो कप' जीता है?

- Ans
1. धमरई हार्डिंग हाई स्कूल
 2. नीलमणी इंग्लिश स्कूल
 3. मनरत ढाका इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज
 4. बांग्लादेश क्रीड़ा शिक्षा प्रोतिष्ठान

Question ID : 368907516
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.16 भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद शीर्ष न्यायालय को पूर्ण न्याय का पालन करने के लिए उपयुक्त आदेश या डिक्री को पारित करने की शक्ति देता है?

- Ans
1. अनुच्छेद 127
 2. अनुच्छेद 134
 3. अनुच्छेद 121
 4. अनुच्छेद 142

Question ID : 368907514
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.17 निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक हैं?

- Ans
1. बागेश्वरी क्रमर
 2. गौहर जान
 3. गिरिजा देवी
 4. कौशिकी चक्रवर्ती

Question ID : 368907494
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.18 पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) का 68वाँ पूर्ण अधिवेशन 8 और 9 सितंबर 2019 को _____ में आयोजित किया गया था।

- Ans
1. त्रिपुरा
 2. असम
 3. नागालैंड
 4. मेघालय

Question ID : 368907495
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.19 निम्नलिखित में से किन दो देशों की सीमा आपस में लगती है?

- Ans
1. भूटान-बांग्लादेश
 2. भारत-कज़ाकस्तान
 3. नेपाल-भूटान
 4. म्यांमार-बांग्लादेश

Question ID : 368907502
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.20 निम्न में से कौन-सी भारतीय दर्शनशास्त्र के दर्शन को (स्कूल ऑफ थॉट) अक्सर "भारतीय भौतिकवाद" कहा जाता है?

- Ans
1. कापालिक
 2. मीमांसा
 3. वैशेषिक
 4. लोकायत

Question ID : 368907508

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.21 परवेज अहमद को हटाने के बाद जम्मू और कश्मीर बैंक के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?

- Ans
1. आर.के. चिब्वर
 2. बी.पी. शर्मा
 3. नासिर मुनजी
 4. अनूप सिन्हा

Question ID : 368907510

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.22 सितंबर 2019 में, भारत, सिंगापुर और _____ ने एक त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास किया, जो _____ में शुरू किया गया था।

- Ans
1. श्रीलंका, निगम्बो
 2. मलेशिया, कोची
 3. इंडोनेशिया, जकार्ता
 4. थाईलैंड, पोर्ट ब्लेयर

Question ID : 368907496

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.23 वसंत उत्सव, "रोंगाली बिहू उत्सव" बड़े उत्साह से _____ में मनाया जाता है।

- Ans
1. मणिपुर
 2. असम
 3. उत्तराखंड
 4. मेघालय

Question ID : 368907493

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.24 1930 दांडी मार्च के बाद कौन सा विशाल आंदोलन शुरू हुआ?

- Ans
1. खिलाफत
 2. भारत छोड़ो
 3. असहयोग
 4. सविनय अवज्ञा

Question ID : 368907509

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.25 'करगा' किस राज्य का सबसे पुराना और व्यापक स्तर पर मनाया जाने वाला उत्सव है?

- Ans
1. झारखण्ड
 2. सिक्किम
 3. कर्नाटक
 4. बिहार

Question ID : 368907492

Status : **Not Answered**

Chosen Option : --

Qmaths.in
SSC | IBPS | RAILWAYS | LIC | SIDBI